

No. of Printed Pages : 4

ECO-012

**BACHELOR DEGREE PROGRAMME
(BDP)**

Term-End Examination

June, 2026

(Elective Course : Commerce)

ECO-012 : ELEMENTS OF AUDITING

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 50

Weightage : 70%

Note : Attempt any ***five*** questions. Each question carries 10 marks.

1. What do you mean by Audit Note Book ?
Explain its contents and usefulness. 2+8
2. What is meant by Internal Check ? State the
essentials of a good internal check system.
3+7
3. Differentiate between 'Final Audit' and
'Interim Audit' with their respective merits
and demerits. 5+5

4. Discuss the qualities of an Auditor in detail. 10
5. State the duties of an Auditor with regard to audit of 'Reserves'. 10
6. Write short notes on the following : 5+5
 - (a) Vouching of Contingent Liabilities
 - (b) Petty Cash
7. How would you verify the following ? 5+5
 - (a) Goodwill
 - (b) Patents
8. What are the objectives of Cost Audit ? Explain various forms of Cost Audit. 5+5
9. Explain the importance of Auditor's Report. Differentiate between a 'Report' and a 'Certificate'. 5+5
10. Explain the procedure of Appointment and Removal of a Company Auditor in brief. 5+5

ECO-012**स्नातक उपाधि कार्यक्रम (बी. डी. पी.)****सत्रांत परीक्षा****जून, 2026****(ऐच्छिक पाठ्यक्रम : वाणिज्य)****ई.सी.ओ.-012 : लेखापरीक्षा के मूल तत्व****समय : 2 घण्टे****अधिकतम अंक : 50****भारिता : 70%**

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. ऑडिट नोटबुक से आपका क्या अभिप्राय है ? इसकी विषय-वस्तु और उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। 2+8
2. आंतरिक जाँच (इंटरनल चेक) का क्या मतलब है ? एक अच्छी आंतरिक जाँच प्रणाली के आवश्यक तत्व बताइए। 3+7
3. 'अंतिम लेखापरीक्षा' (फाइनल ऑडिट) और 'अंतरिम लेखापरीक्षा' (अंतरिम ऑडिट) के बीच उनके गुण-दोषों के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। 5+5

4. एक लेखा परीक्षक के गुणों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 10
5. 'आरक्षित निधियों' की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। 10
6. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 5+5
 (क) आकस्मिक देनदारियों की पुष्टि (वॉचिंग ऑफ़ कंटिजेंट लाएबिलिटीज़)
 (ख) छोटी नकदी (पेट्टी कैश)
7. आप निम्नलिखित का सत्यापन कैसे करेंगे ? 5+5
 (क) सद्भावना (गुडविल)
 (ख) पेटेंट
8. लागत लेखापरीक्षा के उद्देश्य क्या हैं ? लागत लेखापरीक्षा के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। 5+5
9. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का महत्व समझाइए। 'रिपोर्ट' और 'प्रमाणपत्र' में अंतर बताइए। 5+5
10. कंपनी लेखा परीक्षक की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। 5+5

× × × × ×